

आज दिनांक 10 जून, 2018 को प्रातः 09:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ पैट्रन स्व. डॉ० गौर हरी जी सिंहानिया के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के प्रथम दिवस में विगत वर्षों की भांति "निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर" का आयोजन मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया।

दिनांक 08 जून, 2018, 09 जून 2018 व 10 जून, 2018 (तीनों दिन) प्रातः 09:00 बजे से 11:00 बजे तक मरीजों का पंजीकरण किया गया था। दिनांक 10 जून, 2018 को पंजीकरण के साथ-साथ डॉक्टरों द्वारा मरीजों को लगातार देखा जा रहा था।

आयोजित शिविर में उदघाटन के समय से डॉ० गौर हरी जी सिंहानिया के जीवन पर आधारित एक डोक्युमेंट्री प्रस्तुत की गयी जो कैम्प की पूर्ण समयावधि में लगातार चलती रही थी जिससे आये हुए लोगों ने डॉ० गौर हरी जी सिंहानिया द्वारा शहरवासियों के प्रति सेवाओं के बारे में जाना।

शिविर का उदघाटन इस शिविर में माननीय सत्यदेव पचौरी जी, कैबिनेट मंत्री, खादी ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, विशिष्ट-अतिथि तथा श्रीमती सुशीला सिंहानिया जी (स्व. डॉ० गौर हरी जी सिंहानिया की पत्नी) द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। श्री पचौरी जी ने प्रत्येक डॉक्टरों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर स्वास्थ्य शिविर की सफल स्थिति का जायजा लिया और मर्चेट्स चैम्बर को इस सामाजिक सेवा के लिए धन्यवाद देते हुए कहा इस तरह का सफलतम आयोजन मर्चेट्स चैम्बर विगत वर्षों से कर रहा है जिसमें मरीजों को कानपुर के बेहतरीन विशेषज्ञ द्वारा परामर्श के साथ-साथ दवा वितरण भी निशुल्क किया जाता है।

मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी ने बताया कि डॉ० गौर हरी जी सिंहानिया के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के प्रथम दिवस में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का संचालन सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला के द्वितीय दिवस में दिनांक 11 जून, 2018 को समय सायं 04:00 बजे से सायं 06:00 बजे Lifestyle management & Corporate Wellness Workshop का तथा तृतीय एवं अंतिम दिवस में दिनांक 12 जून, 2018 समय सायं 06:30 बजे से "भूले-बिसरे गीत" का आयोजन किया जाएगा। यह समस्त आयोजन सर पदमपत सिंहानिया सभागार, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि हृदय रोग में (लगभग) 40, स्त्री रोग में (लगभग) 55 ओ.पी.डी., पैथोलोजी में (लगभग) 500, जनरल रोग के लिए (जो की बिना पंजीकरण के भी देखे गए थे) लगभग 400, अस्थि रोग में लगभग 220, x-रे में लगभग 80, आंखों में 160, चेस्ट रोग में लगभग 125 ओ.पी.डी. तथा नाक, गला में लगभग 150 ओ.पी.डी., मरीजों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लिया।

उक्त शिविर में पंजीकरण तथा सहायता-केंद्र के काउंटर अलग-अलग बने हुए थे जिसमें बैठे हुए प्रतिनिधि तत्परता के साथ आए हुए मरीजों की निर्देशित करने में लगे हुए थे। विगत वर्षों की भांति

यह शिविर हर वर्ष आयोजित किया जाएगा जिससे आम जन-साधारण को निशुल्क इलाज व दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध होती रहे।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लगभग 600 से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया जिसमें मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश व जे.के. ग्रुप के एम्प्लाइज एवं डॉक्टर्स के साथ आये उनके सहयोगियों द्वारा शिविर को आयोजित करने में अपना योगदान दिया गया।

आयोजित किये गए शिविर का मुख्य उद्देश्य कानपुर शहर के निवासियों को विशेषकर आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के मरीजों का परीक्षण, परामर्श व निःशुल्क दवा-वितरण की गयी।

इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित निम्न चिकित्सकों का विवरण :

इस शिविर में *अस्थि रोग विशेषज्ञ* डॉ. ए.एस. प्रसाद, एवं उनके सहयोगी डॉक्टर्स, *नेत्र रोग विशेषज्ञ* डॉ. अवध दुबे व डॉ. गज़ल इस्माईल, *स्त्री रोग विशेषज्ञ* डॉ. मधु लूम्बा, डॉ. नीता चौधरी, डॉ. रश्मि सहाय, डॉ. रूचि टंडन, *पैप स्मियर परीक्षण* हेतु परीक्षण व परामर्श के लिए डॉ. अल्का शर्मा व उनके सहयोगी डॉक्टर्स, *मधुमेह* के लिए डॉ. नंदिनी रस्तोगी, *हृदय रोग विशेषज्ञ* डॉ. आर.पी.एस. भारद्वाज एवं उनके सहयोगी डॉक्टर्स, *साधारण रोग विशेषज्ञ* डॉ. आर.के. लूम्बा, डॉ. प्रशांत सिंह, *चेस्ट रोग विशेषज्ञ* डॉ. एस.के. कटियार, डॉ. सुधीर चौधरी, डॉ. अपारजोत सिंह, *बाल रोग विशेषज्ञ* डॉ. सविता रस्तोगी, *नाक कान गला (E.N.T.) रोग विशेषज्ञ* डॉ. संगीता सेंगर, *रेडियोलाजिस्ट* डॉ. वी.सी. रस्तोगी तथा डॉक्टर्स की सलाहनुसार चिकित्सकीय परीक्षण के लिए *पैथोलॉजिस्ट* डॉ. उमेश पालीवाल उपस्थित थे।

स्वास्थ्य शिविर में रक्तचाप, मधुमेह जैसी जांचे तथा वजन किया गया तत्पश्चात सम्बंधित डॉक्टर्स द्वारा आवश्यकतानुसार उचित परामर्श दिया गया।

पालीवाल डायग्नोस्टिक्स प्रा.लि. द्वारा खून की जाँच, हिमोग्लोबीन (टी.एल.सी, डी.एल.सी., प्लेटलेट काउंट्स) जैसी जांचे मरीजों को निशुल्क उपलब्ध करवायी गयी।

पैप स्मियर परीक्षण के लिए केवल पंजीकरण किया गया जिसका उचित परामर्श सम्बंधित स्त्री रोग विशेषज्ञ (डॉक्टर्स) द्वारा मरीज को दिया गया।

स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टरों ने निरंतरता से मरीजों को देखा तथा साथ ही साथ शिविर में जांच करवाने आये मरीजों की अत्यधिक संख्या को देखकर डॉक्टरों ने अपना हर्ष व्यक्त किया।

शिविर में आये मरीजों को परामर्श देने व सभी परीक्षण की समाप्ति के बाद मरीज कैम्प की निर्धारित तिथि से 1 सप्ताह के भीतर सम्बंधित डॉक्टर से (कैम्प के दिन दिए गए प्रिस्क्रिप्शन पैड) पर्चे पर लिखे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं जिसमें मरीज को पर्चे के साथ डॉक्टर की सलाहनुसार उसेक क्लिनिक पहुंचना होगा ताकि डॉक्टर मरीज को निशुल्क परामर्श दे सकेंगे।

स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित प्रमुख गणमान्य: मर्चेट्स चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री बी.एम, गर्ग, श्री ए.के. सरौगी, श्री अनिल अग्रवाल, श्री महेंद्र मोदी (-सचिव, मर्चेट्स चैम्बर), डॉ. आर.जी.बागला, डॉ.आई.एम.

रोहतगी, श्री पदम् कुमार जैन, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री सुशील कनोडिया, श्री उमेश पाण्डेय, मर्चेट्स
चैम्बर के सदस्यगण व् जे.के. ग्रुप के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश